

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



म 68]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2001/माघ 23, 1922

No. 68]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2001/MAGHA 23, 1922

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2001

सा. का. नि. 91(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 16 में—

(1) उपनियम (1) के नीचे और पहले परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि कोई ऐसा चीनी उपक्रम जिसने इस नियम के अधीन किसी ऋण का लाभ लिया है तो वह उस अवधि के दौरान केवल एक बार ऋण लेने के लिए पात्र होगा जिसमें इस नियम के अधीन पहले ऋण का उस पर ब्याज सहित पूर्ण रूप से प्रति सदाय नहीं किया है।”

(11) उप नियम (6) में खंड ख के पश्चात चौथे परन्तुक में, “सभी शोध्य रकम” शब्दों के स्थान पर “सभी रकम जो शोध्य हो गई है” शब्द रखे जाएंगे।

3 उक्त नियम के नियम 17 में,—

(1) उपनियम (1) के नीचे और पहले परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, किसी चीनी उपक्रम को उस अवधि के दौरान एक से अधिक बार इस नियम के अधीन किसी ऋण की मंजूरी दे सकेगी जिसमें इस नियम के अधीन पहले ऋण का उस पर ब्याज सहित पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय नहीं किया है।”

- (11) उप नियम (1) में तीसरे परन्तुक में, "सभी शोध्य रकम" शब्दों के स्थान पर "सभी रकम जो शोध्य हो गयी हैं" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1-10/99-एस डी एफ]

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 752(अ) तारीख 28-9-1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्तवर्ती संशोधन सा.का.नि. 817(अ) तारीख 20-12-1984, सा.का.नि. 838(अ) तारीख 14-11-1985, सा.का.नि. 551(अ) तारीख 6-5-1988, सा.का.नि. 235(अ) तारीख 24-4-1991, सा.का.नि. 441(अ) तारीख 28-4-1992, सा.का.नि. 435(अ) तारीख 6-5-1994, सा.का.नि. 27(अ) तारीख 12-1-1996 और सा.का.नि. 656(अ) तारीख 21-11-1997 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2001

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 16 :—
 - (i) below sub-rule (1) and before the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that a Sugar Undertaking that has availed of a loan under this Rule shall be eligible for loan only on one occasion during the period in which the previous loan under this rule alongwith interest thereon has not been fully repaid.”
 - (ii) in sub rule (6), after clause (b) in fourth proviso, for the words “all the sums due”, the words “all the sums which have become due” shall be substituted.
3. In rule 17 of the said rules :—
 - (i) below sub-rule (1) and before the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the Central Government may accord sanction for a loan under this rule to a Sugar Undertaking only on one more occasion during the period in which the previous loan under this rule alongwith the interest thereon has not been fully repaid.”
 - (ii) in sub rule (1), in third proviso, for the words, “all the sums due”, the words “all the sums which have become due” shall be substituted.

[F. No. 1-10/99-SDF]

R. N. DAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide No GSR 752 (E) dated 28-9-83 and subsequently amended vide GSR 817 (E) dated 20-12-84, GSR 838 (E) dated 14-11-85, GSR 551 (E) dated 6-5-88, GSR 235 (E) dated 24-4-91, GSR 441 (E) dated 28-4-92, GSR 435 (E) dated 6-5-94, GSR 27 (E) dated 12-1-96 and GSR 656 (E) dated 21-11-1997.